

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 22 मई तक नैशनल पब्लिक वर्क्स वीक का जश्न मना रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (17 मई, 2021) – आज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन उन पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने और उनकी सराहना करने के लिए, नैशनल पब्लिक वर्क्स वीक (एन.पी.डबल्यू.डबल्यू.) (National Public Works Week) (NPWW) के जश्न की शुरुआत कर रही है, जो कम्युनिटी को सुरक्षित, साफ और गतिशील रखने में योगदान देते हैं।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के लगभग 700 कर्मचारी, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग (Public Works and Engineering) टीम का हिस्सा हैं, जो फ्रंटलाइन्स पर महत्वपूर्ण और जरूरी काम करती है। इन कामों में शामिल हैं: साइडवॉक्स का निर्माण और देखभाल, जरूरी सफर के लिए सड़कों और पुलों को सुरक्षित रखना, सिग्नल और स्ट्रीटलाइट्स का प्रबंधन, बसंत ऋतु में की जाने वाली सफाई, स्नो हटाना, कैच बेसिन (सीवर में कूड़ा जाने से रोकने के लिए लगाए गए डिब्बे) की सफाई और गलियों की सफाई।

कोविड-19 (COVID-19) से पहले, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने पूरा सप्ताह कई मजेदार गतिविधियों के साथ, इस बारे में जागरूकता को बढ़ाकर एन.पी.डबल्यू.डबल्यू. (NPWW) का जश्न मनाया था कि पब्लिक वर्क्स सेवाएं रोजाना समुदाय को कैसे प्रभावित करती हैं। हालांकि इस वर्ष कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, फिर भी एन.पी.डबल्यू.डबल्यू. की [बच्चों के लिए रंग भरने की शीट \(colouring sheet for children\)](#) उपलब्ध है, जिसमें रंग भरकर, फोटो लगाकर, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा सकता है। निवासी पूरा सप्ताह [Twitter](#), [Facebook](#) और [Instagram](#) पर स्टाफ के वीडियो देखकर उन लोगों के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, जो ब्रैम्पटन के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (Public Works Department) में हैं या अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।

हवाले

“नैशनल पब्लिक वर्क्स वीक, उस भूमिका के बारे में जनता को जानकारी देने का एक अवसर है, जो पब्लिक वर्क्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में निभाती है। प्लानिंग से लेकर, निर्माण, प्रबंधन और देखभाल तक – हमारे पब्लिक वर्क्स के पेशेवर उन मुख्य कामों में सहायता करते हैं, जो हमारी ग्रीन, स्वस्थ और सुरक्षित कम्युनिटी का केंद्रीय हिस्सा हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“इस वर्ष का थीम है, स्ट्रॉन्गर टूगेदर। पिछले वर्षों में, हमारी पब्लिक वर्क्स टीम ने लचीलापन दर्शाया है; उन्होंने बदलाव को अपनाया और हमारी कम्युनिटी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, सेवा लेवल्स को कायम रखने हेतु, अपेक्षा से कहीं अधिक काम किया है।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“पब्लिक वर्क्स के पेशेवर, महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज और सेवाओं में सहायता करते हैं और उन्हें कायम रखते हैं, जो स्थिर तथा लचीली कम्युनिटीज, पब्लिक हेल्थ, जीवन गुणवत्ता और ब्रैम्पटन के निवासियों के कल्याण के लिए जरूरी हैं। इस सप्ताह और हर सप्ताह, हम हमारी टीम को मान्यता देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं, जो ब्रैम्पटन को स्वस्थ और सुरक्षित कम्युनिटी बनाए रखने में योगदान देती है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca